

प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrp Code: 532234	प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM
---	---

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/ महोदय,

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find a press release on “**NALCO Q1 FY25 Results: Net Profit rises 72% to Rs.601 crore.**”

The aforesaid information is also disclosed on the website of the company at www.nalcoindia.com.

You are requested to please take a note and disseminate the same in your Exchange.

Thanking you/ धन्यवाद

भवदीय/Yours faithfully,
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
For National Aluminium Co. Ltd.

(एन.के. महान्ति)

(N. K. Mohanty)

कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
ED & Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above/संलग्न

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निगम कार्यालय
नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013 भारत

National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)
REGD. & CORPORATE OFFICE
Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India

CIN # L27203OR1981GOI000920

Tel.:0674-2301988-999, Ext.:2265, 2266, 2267, 2585, 2587, E-mail:company_secretary@nalcoindia.co.in,Website:www.nalcoindia.com

NALCO Q1 FY25 Results:

Net Profit rises 72% to Rs.601 crore

Bhubaneswar, 12.08.2024: National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna CPSE under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading producer and exporter of alumina and aluminium has made a solid beginning and shown exceptional performance in the first quarter of financial year 2024-25 registering robust operational and financial performances.

According to the results taken on record at a meeting of the Board of Directors in Bhubaneswar today, NALCO has reported impressive results in the 1st quarter ended June 30th for FY 2024-25 registering 72% rise in net profit to Rs.601 crore from Rs.349 crore achieved in the corresponding period of previous year as against reported revenue from operation of Rs. 2856 crore during this quarter.

The results achieved during Q1 of FY 25 is on account of various factors such as cost-efficient operation, positive domestic business environment coupled with improvement in International metal prices. NALCO's robust Q1 reflects company's strong commitment to excel and sustained manufacturing momentum, said Shri Sridhar Patra, CMD, NALCO. Moreover, effective operationalization of in-house captive coal from Utkal D coal block contributed significantly to the bottom line, he said.

Worth mentioning that NALCO has been demonstrating robust business performance and registering improved financial parameters across aluminium and alumina value chain over the years.

NALCO has also declared a final dividend of Rs.2 per equity share (40% on face value of Rs.5/- each) amounting to Rs.367.33 crore for the FY 2023-24.

नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

निगम कार्यालय

पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा, भारत

फोन Phone: 91-674-2300680, फैक्स Fax: 91-674-2301290

National Aluminium Company Limited

(A Government of India Enterprise)

Corporate Office

P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha, INDIA

वेबसाइट Website : <http://www.nalcoindia.com>

CIN: L27203OR1981GOI000920